

SAI MOH AUTO LINKS LIMITED

CIN: L34300DL1985PLC020510

Regd. Off.: C-582, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi-110034

Phone: 91-11-27017987; Fax: 91-11-27017987

Email: saimohauto@gmail.com; Website: www.saimohauto.com

Dated: February 14, 2018

To
The Manager (Listing),
Bombay Stock Exchange Limited,
1st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Subject : Submission of Newspaper Publication published on February 14, 2018 w.r.t
Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2017

Ref : BSE Scrip Code- 540066

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper publication w.r.t Unaudited Financial Results of the company for the Quarter Ended 31st December, 2017, published on February 14, 2018 in "Financial Express", English and "Jansatta", Hindi Newspaper.

This is for your information and records.

Thanking You.

Yours Truly,

For Sai Moh Auto Links Limited


Dinesh Kumar Maurya
Company Secretary

Encl: As Above

CC:

The Manager (Listing),
Ludhiana Stock Exchange Limited,
Feroz Gandhi Market,
Jila Kacheri Area, Model Gram,
Ludhiana, Punjab – 141001

The Manager (Listing),
Ahmedabad Stock Exchange Limited
Kamdhenu Complex, Opp. Sahajanand College,
Panjara Pole, Ambawadi,
Ahmedabad – 380015

The Manager (Listing),
Delhi Stock Exchange Ltd.,
DSE House, 3/1, Asaf Ali Road,
New Delhi – 110002

Morn Media Limited

(Earlier known as Jagran Limited)

Regd. Office: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005

CIN: L22121UP1983PLC006177 • ISIN: INE 347000

are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
b) The above Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 31.12.2017 have been Reviewed by the Audit Committee and approved by the board of directors at its board meeting held on 13.02.2018.

For Superior Finlease Limited

Anil Agarwal
DirectorPlace: New Delhi
Date: 13.02.2018**SAI MOH AUTO LINKS LIMITED**

CIN : L34300DL1985PLC020510

Regd. Off. : C-582, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi-110034 Phone: 91-11-27017987;
Fax: 91-11-27017987; Email: saimohauto@gmail.com; Website: www.saimohauto.com**EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2017**

S. No.	Particulars	(Rs. in Lacs)		
		For the Quarter Ended 31.12.2017	For the Nine Months Ended 31.12.2017	For the Quarter Ended 31.12.2016
1	Total income from operations (net)	1.79	10.04	4.50
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	(1.44)	(1.42)	0.23
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(1.44)	(1.42)	0.23
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(1.36)	(1.42)	0.07
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	0.00	0.00	0.00
6	Equity Share Capital	330.25	330.25	330.25
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and			

capitalized terms used and not defined
limited ("BSE") and
of Offer" or "LOF").



...posing the refund order. In case of Ordinary Shares held in dematerialized Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Ordinary draft purchased from NRE or FCNR or NRO account, as the case may be, an s, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of "Terms of the Issue-Application on Plain Paper under the ASBA Process" on

any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or in India but not in the United States. If we understand the offering to which this buy any of the said Ordinary Shares or Rights Entitlement in the United States. neither us, nor the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on reason to believe is in the United States or is ineligible to participate in the Issue such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for except in an offshore transaction in compliance with Regulation S, or otherwise on the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements." for advertisements in connection with the Issue may not be distributed, in any which it would be illegal to make such an offer and, in those circumstances, the persons receiving a copy of the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer securities laws or regulations. If the Letter of Offer or the Abridged Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer. Envelopes containing the CAF should not be

securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred Ad: The rights entitlements and Ordinary Shares referred to in the Letter of Shares or rights for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer

pany, or any person acting on behalf of our Company, has reason to believe is, es of America or any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer to Eligible Ordinary Shareholders who have provided an Indian address to our is not and that at the time of subscribing for the Ordinary Shares or the Rights e laws and regulations.

the United States of America; (ii) does not include the relevant certification set ted States of America, and such person is complying with laws of jurisdictions

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 31 December, 2017

(₹ in lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		31.12.2017	31.12.2016	31.03.2017
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from operations	1,079.76	1,676.10	8,172.7
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(139.26)	(81.85)	16.8
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(139.26)	(81.85)	16.8
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(136.89)	(51.72)	21.8
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(136.89)	(51.72)	21.8
6	Equity Share Capital	345.72	345.72	345.72
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	1.5
8	(i) Earnings per Share (of Rs. 10/- each)	(39.57)	(14.50)	(39.57)
	(ii) Dividend per Share (of Rs. 10/- each)	(1.00)	(1.00)	(1.00)



SBI Capital Markets Limited
202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade, Mumbai 400 005;
Tel: +91 22 2217 8300; Fax: +91 22 2217 8332
E-mail: tsr.rights@sbicaps.com
Investor grievance E-mail: investor.relations@sbicaps.com
Website: www.sbicaps.com
Contact person: Nikhil Bhiwapurkar/Gitish Vargantwar
SEBI Registration Number: INM000003531

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

Moddy Street, Fort, Mumbai 400 001
Fax: +91 22 6665 7724; E-mail: cosec@tatasteel.com

any Secretary and Compliance Officer at the above mentioned address and/ or the Registrar to the in case of any pre-issue/post-issue related problems such as non-receipt of allotment advice/share orders etc. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy

For TATA STEEL LIMITED

